

सिलवासा और दमण में स्थानांतरित दो अधिकारियों को दीव के माननीय समाहर्ता ने दी विदाई संवर्धना

दीव 26 फरवरी, 2019: आज समाहर्तालय, दीव के सभागार में दीव प्रशासन के सरकारी अस्पताल, दीव में वरिष्ठ सर्जन के पद पर तैनात डॉ. संजय वर्मा का सिलवासा स्थित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण होने तथा राजभाषा विभाग, दीव के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री अरुण कुमार पांडेय के राजभाषा विभाग, दमण स्थानांतरण होने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन किया गया ।

इस अवसर पर दीव के माननीय समाहर्ता श्री हेमन्त कुमार ने दोनों अधिकारियों को श्रीफल, शॉल और स्मृति-चिन्ह भेंट दी । इस अवसर पर दीव प्रशासन में तैनात अधिकारीगण एवं कार्मिक उपस्थित रहे । डॉ. सिद्धार्थ शेखर साहू ने डॉ. वर्मा की अविस्मरणीय सेवा को याद करते हुए कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से दीव के सरकारी अस्पताल को अपनी बहुमूल्य सेवा से अलंकृत करते आये हैं । उनके मार्गदर्शन में अन्य चिकित्सकों ने भी उपचार के आधुनिक विधियों को सीखा और उनको अमल में लाया है । उनकी कमी निश्चय ही इस जिला प्रशासन को महसूस होगी ।

राजभाषा विभाग, दीव के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री सुनील कुमार तिवारी ने श्री अरुण कुमार पांडेय की सेवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि श्री पांडेय ने पिछले 22 वर्षों में राजभाषा विभाग, दीव के जरिये दीव जिला प्रशासन की तहेदिल से सेवा की है । उन्होंने हिन्दी के कामकाज के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई जो उनकी मृदुता एवं कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाती है ।

इस अवसर पर माननीय समाहर्ता ने कहा कि डॉ. वर्मा एवं उनकी टीम ने पूरी लगन एवं मेहनत से यहां के लोगों की सेवा की है । हम उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि वे इसी मेहनत और लगन के साथ सिलवासा में भी लोगों को अपनी सेवा प्रदान करेंगे। साथ ही उन्होंने श्री अरुण पांडेय को दमण में उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना भी की ।

~~~~~